

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

KAMA/SEC/ 2021 01st February,2021

Dear Sir,

Sub: Newspaper Clippings of Notice of Board Meeting for quarter and nine months ended December 31 2020 - KAMA Holdings Limited

In Compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of Notice of Board Meeting published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspaper. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.kamaholdings.com

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **KAMA HOLDINGS LIMITED**

Ekta Maheshwari
Whole-time Director, CFO & Company Secretary

Encl : A/a

Ekta

KAMA Holdings Limited

Block-C, Sector-45 Gurgaon 122 003 Haryana, India Tel: +91-124-4354400 Fax: +91-124-4354500 Email: info@kamaholdings.com Website: www.kamaholdings.com

Regd. Office: Jnit No. 236 & 237, 2nd Floor DLF Galleria, Mayur Palace Mayur Vihar Phase-1 Extension Delhi 110091

FINANCIAL EXPRESS



B-3, CONNAUGHT PLACE BRANCH, NEW DELHI-110001 PHONES: 011-23311192, 23753258 E-mail Id- connau@bankofbaroda.com

NOTICE TO BORROWER / GUARANTOR

(UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 13 OF THE SARFAESI ACT, 2002) M/s Mica Industries Limited, Registered & Corporate Office: A-36, 2ND Floor, Rajouri Garden, Ring Road. New Delhi-110027, Phone No: 011-46201300 and 301. (M)9312753105

Address of Unit/ Factory/ works: G-1031-32, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi-301019, Alwar (Rajasthan), E-92, RIICO Industrial Area Industrial Area, , Phase-II, Bhiwadi-301019, Alwar (Rajasthan)

2. Mr. Vinay Gupta, 58, Birch Court, Nirvana Country Near South City-ii, Sector-50, Gurgaon Gurgaon South City-II, Gurgaon Haryana 122018 3. Mr. Vikas Goel, House No 95 Tatvam Villas Sohna Road South City 2 Harvana 122018

4. Mr. V.N. Gupta, Villa No 95 Block Z Tatavam Villas Sector 49 Gurgaon District Gurgaon Haryana 120018 Haryana 120018

5. Ms. Usha Gupta W/o Sh. V.N. Gupta, Villa No 95 Block Z Tatavam Villas Sector 49 Gurgaon District Gurgaon Haryana 120018 Haryana 120018 6. Niharika Goyal, House No 95, Talvam Villas Sohna Road, Sector-48, Gurgaon, Islampur(97), Gurgaon

South City-ii.garrukhnagar Gurgaon Haryana 122018 6. M/s Ocean Buildtech P Ltd., 72, Mamdir Marg Haiderpur Industrial Area Maiderpur 110088 Delhi

Re: Credit facilities with Our B-3, Connaught Circus Branch.

 We refer to our letter no. ZOCAC. dated 28.12.2018 conveying sanction of various credit facilities and the terms of sanction. Pursuant to the above sanction you have availed and started utilising the credit facilities after providing security for the same, as hereinafter stated. The present outstanding in various loan/ credit facility accounts and the security interests created for such liability are as under:

No.	and type	Limit of facility	Rate of interest	of interest upto 31-12-2020)	description of securities
1	Cash Credit (Hyp)	Rs. 3,00,00,000.00 (Rupees three crore only)	1-Year MCLR plus SP plus 735 bps, presently being 15% P.A	Rs. 4.80 (Rupees four crore eighty lakhs)	Hypothecation of Stock and Book Debts (both present and future) Equitable mortgage of immovable properties, details thereof is reported below # -

EM of Fixed Assets, Factory Land & Building 4276 Sq. meter situate at Plot No. G-1031-32, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Alwar (Raj.)

EM of Fixed Assets, Factory Land & Building 4276 Sq. meter situate at Plot No. E-92, RIICO Industrial Rea,

Hypothecation of P&M at G-1031-32, RIICO Industrial Area, phase-III, Bhiwadi, Alwar (Rai,)

Hypothecation of P&M E-92, RIICO Industrial Rea, Phase-I, Bhiwadi, Alwar (Raj.)

Hypothecation of P&M at Plot No. 508-10, GIDC Shed Area, Dehgam Road, Vapi, Gujrat

In the letter of acknowledgement of debt dated 31-03-2018, you have acknowledged your liability to the Bank to the tune of CCH Rs.3,04,91,081.01/- (Rupees three crore forty nine lakh one thousand and eighty one rupees) and Bank guarantee of Rs. 7,00,00,000/- (Rupees Three Crore, Twenty Six Lacs, Forty One Thousand, and Four Hundred only) as on 31-03-2018. The outstanding stated above includes further drawings and interests upto 31-03-2020 As you are aware, you have committed defaults in payment of interests/instalment on above loans/

outstanding for the quarter ended December, 2018.

asset on 31-12-2018 (mention date of classification as NPA) in accordance with the Reserve Bank of India directives and guidelines. Inspite of our repeated requests and demands you have not repaid the overdue loans including interests thereon. 5. Having regard to your inability to meet your liabilities in respect of the credit facilities duly secured by various

securities mentioned in para 1 above, and classification of your account as non-performing asset, we hereby give you notice under sub- section (2) of section 13 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and call upon you to pay in full and discharge your liabilities to the Bank aggregating Rs.4.80 cr (Rupes four crore and eighty lakh only) as stated in para 1 above, within 60 days from the date of this notice. We further give you notice that failing payment of above amount with interest till the date of payment, we shall be free to exercise all or any of the rights under subsection (4) of section 13 of the said Act, which please note. Please note that, interest will continue to accrue at the rates specified in para 1 above for each credit facility

7. We invite your attention to section 13(13) of the said Act in terms of which you are barred from transferring any of the secured assets referred to in para 1 above by the way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business), without obtaining our prior written consent. We may add that non-compliance with the above provision contained in section 13(13) of the said Act, is an offence punishable under section We further invite your attention to sub section (8) of section 13 of the said Act in terms of which you may

redeem the secured assets, if the amount of dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank is tendered by you, at any time before the date of publication of notice for public auction/ inviting quotations/ tender/ private treaty. Please note that after publication of the notice as above, your right to redeem the secured assets will not be available.

Please note that this demand notice is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which we may have, including without limitation, the right to make further demands in respect of sums owing to us.

Authorised Officer

SEASONS NOTICE

SEASONS TEXTILES LIMITED CIN - L74999DL1986PLC024058

Regd. Off.: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110024 Email:cs.stl@seasonsworld.com Website: www.seasonsworld.com

the Company for the Quarter ended as on 31" December, 2020.

Managing Director Date: 29.01.2021

SEASONS FURNISHINGS

LIMITED CIN - L36101DL1990PLC039238

Regd. Off: 64, Ground Floor, Ring Road, Lajpat Nagar - III, New Delhi: 110 024 Email:cs@seasonsfurnishings.com Website: www.seasonsfurnishings.com Phone No. 0120-4160126

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday the 08" February, 2021 inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended as on 31° December, 2020.

Place: New Delhi (Mandeep Singh Wadhwa Managing Director Date: 29.01.2021

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Office: "Radhika", 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabd-380009 Branch Office: Building No. 59, Ist & Ilind Floor, Panchkulan Road, Near R K Ashram Metro, New Delhi-110001

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002 YOU THE BELOW MENTIONED BORROWERS, CO-BORROWERS AND GUARANTORS HAVE AVAILED LOAN(S)/ FINANCIAL FACILITY(IES) FROM HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED BY MORTGAGING YOUR IMMOVABLE PROPERTIES (SECURITIES) AND DEFAULTED IN REPAYMENT OF THE SAME. CONSEQUENT TO YOUR DEFAULTS YOUR LOAN WAS CLASSIFIED AS NON-PERFORMING ASSET. SUBSEQUETLY, THE COMPANY HAS ISSUED DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSET AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (THE ACT), THE CONTENTS OF WHICH ARE BEING PUBLISHED HEREWITH AS PER SECTION 13(2) OF THE ACT READ WITH RULE 3(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 AS AND BY WAY OF ALTERNATE SERVICE UPON YOU. DETAILS OF THE BORROWERS, CO-BORROWERS, LOAN ACCOUNT NO., LOAN AMOUNT, DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) DATE, AMOUNT CLAIMED IN THE NOTICE, NPA DATE AND SECURITIES ARE GIVEN AS UNDER: Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Indo Gulf Diagnostics And Research Centre

Private Limited, Sukhdev Kumar, Sukhdev Kumar, Gulshan Rani, Darshan Ram And Navdeep Kumar All At B 498 A Sector 19 Noida-201301, Also At : Plot No.88, Block B Sector 44, Noida-201301, ; Loan Account No. 1513616, 889767 and 889735 linked by Unique Id. Number 777304; Loan Amount: Rs 7798000 (Rupees Seventy Seven Lakhs Ninety Eight Thousand Only) by loan account number 1513616, to the tune of Rs. 50000000 (Rupees Five Crores Only) by loan account number 889767 and to the tune of Rs. 27500000 (Rupees Two Crores Seventy Five Lakhs Only) by loan account number 889435; Demand Notice Date: 07.01.2021; Amount Claimed: Rs 6,99,88,285.60. (Rupees Six Crores Ninety Nine Lakhs Eighty Eight Thousand Two Hundred Eighty Five and Paise Sixty Only) as of 07 January 2021 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc ...; Npa Date: 05.07.2020; Details Of Security: All the piece and parcel of the Plot No. B 88 Sector 44 Noida-201010 admeasuring 450 Sq. Mtrs. and recorded in the name of Sukhdev Kumar Registration document: Book No. 1, on pages 147 to 192, at serial no. 2078, on dated 21.12.2010, with the office of Sub-registrar of Assurances: Noida, Property bounded as: East: 12.00 Mtrs. Wide Road; West: Plot No. B-118; North : Plot No. B-

YOU THE BORROWER/ CO-BORROWERS AND GAURANTORS ARE THEREFORE CALLED UPON TO MAKE PAYMENT OF THE ABOVE MENTIONED DEMANDED AMOUNT WITH FURTHER INTEREST AS MENTIONED HEREINABOVE IN FULL WITHIN 60 DAYS OF THIS NOTICE FAILING WHICH THE UNDERSIGNED SHALL BE CONSTRAINED TO TAKE ACTION UNDER THE ACT TO ENFORCE THE ABOVE-MENTIONED SECURITIES (BORROWER'S ATTENTION IS INVITED TO PROVISIONS OF SUB-SECTION (8) OF SECTION 13 OF THE ACT, IN RESPECT OF TIME AVAILABLE, TO REDEEM THE SECURED

ASSETS.) PLEASE NOTE THAT AS PER SECTION 13(13) OF THE SAID ACT, YOU ARE RESTRAINED FROM TRANSFERRING THE ABOVE-REFÉRRED SECURITIES BY WAY OF SALE, LEASE OR OTHERWISE WITHOUT OUR CONSENT AND ANY NON COMPLIANCE OF SECTION 13(13) OF THE ACT IS PUNISHABLE UNDER SECTION 29 OF THE SAID ACT.

FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT MR. ASHISH KUMAR, PHONE: 9999260180 OR MR. VIKAS ANAND 9711010384

DATE: 28/1/2021 **AUTHORISED OFFICER**

केनस बैंक Canara Bank 📣

date of the said notice.

(For Immovable Property) Rule-8(1)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice Calling upon the Borrower/Guarantors and owner of the property/surety to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the

possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with rule 8 of the Security (Enforcement) Rules, 2002 on this mentioned the date. The borrower's attention is invited to the provisions of sub-sec (8) of Section 13 of the Act in espect of time available to redeem the secured assets. The borrower/surety/owner of property in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

Place: Delhi

property will be subject to the charge of the Canara Bank, Respective Branch for Notice amounts and interest thereon.

Sr. No.	Branch & Name of The Borrower/Guarantor	Description of Immovable Property/ Owner of Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Outstanding Ammount
1.	Borrower: M/s Rameshwari Organic Farming, Sri Ramesh Chandra Mishra S/o Late Shri Chintamani Mishra. Branch: Indirapuram, Ghaziabad.	All that part and parcel of the property consisting of Flat no. B-116, Block E, Covered area 92.13 sq.mtrs. situated at Block E, Plot No. G.H1/11, First Floor, Dronagiri Apartment, Sector 11, Vasundhara, Ghaziabad, U.P 201012 owned by Ramesh Chandra Mishra and Bounded: North: Flat no. E-115, South: Flat No. A-114, East: Open Space and Road 20 Feet wide, West: E-113.		29.01.2021	Rs. 64,56,495.04 + Further Intrest & other Charge. As on 15.07.2020
2.	Borrower: M/s Alshifa Manufacturing and Training, Sri Mohd. Nazim S/o Mohd. Nashir. Branch: Indirapuram, Ghaziabad.	All that part and parcel of the property consisting of Office No. 23A, area 22.642 sq.mtrs. on Second Floor, Shilpi Arcade, Plot no. 14, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad - 201010 and Bounded: North: Other Shop, South: Passage, East: Remaining Part of Shop 23A, West: Shop.	15.07.2020	29.01.2021	Rs. 25,32,824.88 + Further Intrest & other Charge. As on 15.07.2020
Dat	te: 29.01.2021	Regional Office: Ghazlabad		A	uthorised Officer



T : 011-40521562, 011- 41640060, CIN : U65990DL2016PTC298946, customercare@manibhavnam.com / www.manibhavnam.con **E-AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS**

Notice is hereby given to the public in general, and in particular to the Borrower (s) and Co-Borrower (s) for conducting the E-Auction of the below described immovable property mortgaged to Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited under Loan Agreement No. HL000000000351 (Hereinafter referred to as 'Secured Creditor") that the below mentioned borrower failed to repay the due amounts to the Secured Creditor from the date of the notice dated 21st December 2020 issued by its Authorised Officer and accordingly the

Secured Creditor on 7th January 2021. The under signed being the Authorised Officer of **Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited** has decided to sell the scheduled property on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", and "WHATEVER THERE IS" basis for recovery of Rs. 6,08,032 (Rupees Six Lacs Eight Thousand and Thirty Two Only) as on 28th January 2021 together with interest and other contractual dues due to the Secured Creditor from

Physical possession of the below mentioned mortgaged property was taken by the Authorised Officer of

Borrowers and Guarantors Mr. Surjit Singh Chauhan, R/o: FF, RZ-T-55, Khasra No. 32, Village Bindapur, South Extn. Part - III, Uttam Nagar, New Delhi - 59 and Mrs. Hinaben Chauhan W/o Surjit Singh Chauhan R/o: FF, RZ-T-55, Khasra No. 32, Village Bindapur, South Extn. Part-III, Uttam Nagar, New Delhi – 59. The reserve price for the auction of said properties are Rs. 9,00,000 (Rupees Nine Lacs only) and the Earnest Money Deposit will be Rs. 90,000 (Rupees Ninty Thounsand Only) i.e. 10% of the Reserve Price and shall be deposited through DD / RTGS in favor of account of "Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited" Bank Account No. 50200023120244, HDFC Bank Ltd., before submitting the tender online. The successfu bidder shall pay a deposit of 25% of the amount of the Sale Price (less 10% amount paid with the Bid) at the time of acceptance of Bid i.e. on the same day. Balance 75% of the sale price required to be deposited within 15 days from the date of acceptance of Bid.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of Built-up First Floor (without Roof / Terrace Rights), with Total Covered Area (approx.) 340 sq. fts. on Land Area - 42 Sq. Mtrs., Built on Khasra No. 32, Situated at Uttam Nagar New Delhi - 110 059

Terms and conditions of the Auction:

a. E - Auction / bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://www.bankauctions.com. Bidders are advised to go through the website for detailed terms & process before taking part in the e-auction sale proceedings.

b. The property & property documents can be inspected, with Prior Appointment with Authorised Officer on or before the date for auction mentioned. c. The property will not be sold below the Reserve Price and accordingly the participating bidders are invited to

bid more than reserve price and may enhance their offer further during auction process. d. EMD amount of 10% of the Reserve Price along with documents are to be deposited by way of RTGS

Demand Draft in favour of account of "Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited" Bank Account No. 50200023120244 HDFC BANK LTD., on or before 27.02.2021 up to 5:00 P.M. e. E- Auction will be conducted on 02.03.2021 for 60 minutes from 1.30 PM to 02:30 PM with auto

extension of 5 minutes each. After payment of the EMD amount, the intending bidders should submit a copy of the following documents details on or before 02.03.2021 by 10.30 A.M to "Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited" through Mr Saurabh Jha, (email: s.jha@manibhavnam.com), Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited, N-2, Second Floor, South Extension-I, New Delhi - 110049

 By hand or through email. i. Photocopy of Demand Draft / RTGS Details towards EMD amount

ii. Photocopies of KYCs such as PAN Card, ID Proof and Address proof. However, successful bidder would have to produce these documents in original at the time of making payment of balance

amount of 25% of bid amount. iii. Bidders Name, Contact No., Address, E-Mail Id.

iv. Bidder's A/c. details for online refund of EMD.

g. The intending bidders should register their names at portal https://www.bankauctions.com and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E- auction from the service provider, M/s 4 Closure, Hyderabad helpline No.: 0814200062/65/66 & email: info@bankauctions.in

. Contact Person: Vikas Kumar: 08142000809, 08076427383, email: vikas@bankauctions.in EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them. The EMD shall not carry any interest.

Auction would commence at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall enhance their offers in multiplies of Rs. 10,000/-. The bidder who submits the highest bid (above the Reserve price) on closure of 'Online' auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmed in favour of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the authorized officer of the "Mani Bhavnam Home Finance

India Private Limited". . The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately or declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the authorized officer of the "Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited". If the successful bidder fails to pay the sale price, the deposit made by him whatsoever shall be forfeited by the Authorized Officer without any notice and property shall forthwith be put up for sale again.

The successful bidder shall bear all expenses including statutory dues / taxes / bills etc. to Municipal Corporation / Society or any other authorities and fees payable for stamp duty, registration fee etc. for registration of the 'Sale Certificate' m."Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited" does not take any responsibility to procure any

dues i.e. outstanding water/electric dues, property tax or other charges if any. n. The Authorized Officer has absolute right to accept or reject any or all the offers/bids or adjourn/cancel the sale without assigning any reason or modify any terms of sale without any prior notice.

permission/NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or any other

 To the best of its knowledge and information, the "Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited" is not aware of any encumbrances on the properties to be sold except of the "Secured Creditor" Interested parties should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of the properties to their satisfaction prior to submitting their bid. "Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited" does not in any way guarantee or makes any representation with regard to the

p. For further details please contact Mr. Anurag Jain on Mobile : 9910040588, Email anurag.jain@manibhavnam.com

fitness / title of the aforesaid properties.

SPECIAL INSTRUCTION/CAUTION: Bidding in the last minutes / seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited nor the service provider will be responsible for any lapses / failure (internet failure, power failure, etc.) on the part of the bidder or vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements / alternatives such as back–up, power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

The Borrower / Co-Borrowers / guarantors / mortgagers are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses within 30 days before auction on 02.03.2021, failing which the auction of mortgaged property mentioned above shall take place and balance dues if any shall be recovered with interest / cost.

Date: 30.01.2021 Authorized Officer, Mani Bhavnam Home Finance India Private Limited

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN No. L40101HP1988GOI008409

Jhangi Thopan Powari Hydro Electric Project

Notice Inviting Tender (Through e-tendering process only)

CORRIGENDUM-I Advertisement for Tender No. JTPHEP-PCD-07 "Exploratory Diamond core drilling for geological investigation of proposed Power House, HRT & Dam site of JTPHEP" was published in newspapers on 09.01.2021. The due dates of tender are

a) Last Date of Availability/ Downloading of bid b) Last Date of submission/

EXTENDED as under

: 09.02.2021 at (1300 hrs.)

: 08.02.2021 at (1200 hrs.)

uploading of bid c) Date of opening of bid : 09.02.2021 at (1400 hrs.).

All other terms and conditions shall remain unchanged. Sr. Addl. General Manager,

KAMA HOLDINGS LIMITED

CIN: L92199DL2000PLC104779

KAMA Holdings Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn. Delhi – 110091

Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurugram-122003 Tel. No: (+91-124) 4354400 • Fax: (+91-124) 4354500

Email: info@kamaholdings.com website: www.kamaholdings.com

NOTICE NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the KAMA Holdings Limited will be held on Monday, the 8th February, 2021 inter-alia, to approve the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020.

This Information is also available on the Company's website i.e. www.kamaholdings.com and also on the websites of the BSE Limited www.bseindia.com, Stock Exchange where Company's shares are listed.

for KAMA HOLDINGS LIMITED

EKTA MAHESHWARI

Place: Gurugram (Whole Time Director, CFO Date: January 29, 2021

& Company Secretary) ANAND PROJECTS LIMITED

(CIN: L40109UP1936PLC048200)

Regd. Office: House No. 304, Ajadpura, Lalitpur-284403 (U.P) Website: www.anandprojects.com Tel No. +91 9891067472 NOTICE

Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12", 2021 at SF 001 & 035, Second Floor, Ansal Fortune Arcade, Sector-18, Noida- 201301 (U.P.), inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results (Standalone) of the Company for the third quarter ended December 31st, 2020 of the F.Y. 2020-21 along with any other business, with the permission of the Chairperson of the said Board Meeting. This said information is also available on the Company's website at

www.anandprojects.com and may also available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com

Further, in terms Company's Code of Conduct for Insider Trading, framed pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and amended from time to time, the trading window for dealing in securities of the Company, shall remain closed for all the directors and other persons covered under the code, from January 01st, 2021 till the expiry of 48 hours after communication of aforesaid Un-audited Financial Results to the Stock Exchanges.

For and on behalf of the Board

Dated: 29.01.2021 Place: Noida

Surendra Kumar Sharma (Company Secretary) M. No. F-5737

OSWAL YARNS LIMITED Link Road, Industrial Area-A, Ludhiana- 141 003 CIN: L17111PB1982PLC5006

Phone No: 0161-2224256, E.mail: oylyarns@rediffmail.com ANNEXURE -XI

Extract of Quarterly Financial Results for the Quarter ended 31.12.2020 All figures in Rs Lacs **PARTICULARS** QUARTER YEAR

ENDED ENDED 31,12,2020 31.12.2019 31.03.2020 Total Income from operations (net) 125.03 106.97 314.70 Net Profit /(Loss) from ordinary activities 8.07 Net Profit /(Loss) for the period after tax (1.00)(after Extraordinary items) Equity Share Capital 401 (28.53)Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous Earnings per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each) 0.20 Basic: 0.08 (0.02)Diluted: Earnings per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each)

0.20 0.08 The above is an extract of the detailed format of Quarterly /Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of

The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at the meeting held on 28.01.2021.

Date: 28.01.2021 Place: Ludhiana

Folio

034585 Asha Sharma

Place : NOIDA

Date : 29.01.2021

For Oswal Yarns Limited **Bharatt Oswall** Din no: 00469332

Distinctive No.

7821535-7821634

Shares

100

FUFLEX UFLEX LIMITED CIN: L74899DL1988PLC032166

Regd. Off.: 305, 3" Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I,

New Delhi-110 048, Phone: +91-11-26440917, 26440925 Fax: +91-11-26216922 Website: www.uflexltd.com, Email: secretarial@uflexltd.com NOTICE

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported lost and the holders thereof have requested the Company for issue of duplicate certificates in lieu of the original reported lost. Any person(s) claiming/having any interest in the said shares or any person(s) having any objection to the issue of duplicate as aforesaid should write/ send his/her objection to the Company within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company would be free to consider issue of duplicate shares and the Company shall not be responsible for any loss, financial or otherwise, caused to any such persons.

Cert. No.

142457-142458

0111322	Khajanchi Lal	1186-1187	3054501-3054600	400
DOMESTICAL STREET	AC 00250 1000 ACT	13374	3663901-3663950	
		17129	3851651-3851700	
		37516	4871001-4871050	
		150548	8226085-8226134	
		129217	11054845-11054894	
		134496	11290072-11290121	
034347	N R Kukreja	42881-42882	185047-185146	100
023272	G Anantharaman	251829	16345939-16345944	6
022149	Gurjinder Singh	125493-125494	10895484-10895583	156
	25 25	227332	15421059-15421102	
	-	249912	16302828-16302839	
012110	Anii Aggarwal	16674-16675	3828901-3829000	100
055614	Jasvantiben Mehta	397490	49393042-49393074	33
047985	Anjana Shah Yogesh Shah	356781	2585127-2585226	100
K00338	K B Kadheeja Beevi A P M Moidu K B Zameer	394433	28984893-28984952	60
K00349	K B Zameer A P M Moidu K B Kadheeja Beevi	394436	28985055-28985074	20
N01284	Nemadevi	240221-240222	15955638-15955737	100

For UFLEX LIMITED AJAY KRISHNA

Sr. Vice President (Legal) & Company Secretary ACS No.3296

Address: C-001, Krishna Apra Residency, E-8, Sector-61, Noida-201301

financialexp.epapr.in

Sr. Nature Limit of facility Date of interest O/s as on 31.12.2020 (inclusive Security agreement with brief

Phase-I, Bhiwadi, Alwar (Raj.

Consequent upon defaults committed by you, your loan account has been classified as non- performing

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Regional Office Delhi (North & Central)
Central Bank of India

MEGA e-AUCTION SALE NOTICE Delhi-110006. Tel: 011-23832226

(Under SARFAESI Act 2002) APPENDIX- IV-A [SEE PROVISO TO RULE 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the secured creditor, the Physical / Symbolic Possession of which have been taken by the Authorized officer of Central Bank of India, Secured creditors, will be sold on 05.03.2021 "As is where is" "As is what is" and "whatever there is" basis for recovery of dues to the Central Bank of India from below mention

Borrower(s) and Guarantor(s). The Reserve Price and earnest money deposit (EMD) is displayed against the details of respective properties. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in: www.centralbankofindia.co.in or https://ibapi.in DESCRIPTION OF PROPERTIES TO BE AUCTIONED ON 05.03.2021 (30 DAYS NOTICE) Rs. in Lakhs Reserve Pr EMID Authorised Demand Notice Date & Date & Type of Name of Name of the Description of property & Owner Amount Dues (Rs. in Lakhs) Possession Branch Officer/B.M Account 07.01.2020 ₹ 27.00 MR. SANTOSH NAAZ INDIA First Floor Flat, Without Roof Rights DARYAGANJ 25.09.2018 AGGARWAL (Physical Lacs NEW DELHI Rs.93.02 Lakh Plot No.B-24, Khasra No.1310, ₹ 2.70 + Other Charges M: 8800013511 Possession Hayat Enclave Village Loni Tehsil, Lacs Applicable deductions. District Ghaziabad U.P. Area 154 ₹ 0.27 repayments Sq.Mtr. (Owner: Zubir Khan) MR GAURAV Upper Ground Floor, Property No.68. 10.12.2020 KASHMERE RAM 30.09.2019

Lacs ₹ 16.63 GATE, DELHI KUMAR Rs.12.39 Lakh (Physical Lacs PRASHAD Block-A, Nand Ram Park, Uttam ₹ 1.67 + Other Charges M: 8800013544 SHARMA Possession Nagar, New Delhi-110059. Lacs Applicable deductions Area 450 Sq.ft. ₹ 0.20 repayments (Owner: Ram Prashad Sharma Lacs ₹ 13.50 28.10.2020 LRPG MR ANIL GANESH Residential Builder Flat, Front/ Eastern 18.04.2019 Portion, Flat No GF-1, Plot No. B-72, (Physical Lacs COLLEGE KUMAR / Rs.10.68 Lakh Near Apna Park, DLF Ankur Vihar, Possession ₹ 1.35 + Other Charges GHAZIABAD MS SANDHYA Tehsil & Dist., Ghaziabad-201102. Lacs applicable deductions SINGH / Area 65.03 Sq.Mtr. ₹ 0.15 M: 8800013520 repayments (Owner: Ganesh Sahu Lacs ₹ 16.80 18.10.2019 SEHANI MR. SINHA Ground Floor Residential Flat, 01.08.2019 ANKUR Physical **GHAZIABAD** RAM JOSHI Rs.12.21 Lakh AGGARWAL Plot No. 36-A, Sham Nagar, Khureji Possession M: 9999467512 + Other Charges Khas, Shahdara, Delhi-110051 Applicable deductions (Owner: Mr. Ankur Aggarwal) repayments Area-50.16 Sq. Mtrs.

Lacs ₹ 1.68 Lacs ₹ 0.20 Lacs 15.11.2018 ₹ 41.12 MR. PRAMOD SECTOR-15 M/s. Lavanya Residential Property at H. No. 676 30.08.2018 (Symbolic Lacs FARIDABAD KUMAR Agro Edibles Near District Court , Shiv Colony Rs.4,94,48,979/-₹ 4.11 Possession MOB: Chandpur Road, Bulandshahar, Uttar + Other Charges Pvt. Ltd. Lacs 9868912601 Applicable deductions/ Pradesh. Area-200 Sq. yards. ₹ 0.45 repayments (Owner: Dharamveer Singh Rana S/o . Shri Kamal Singh) 6. KESHAVPURAM BINITA RANI M/S. SHIVAM Property bearing no. WZ-3408-A, 2nd 23.09.2020 ₹ 35.00 03.07.2020 Symbolic Lacs Rs.14,28,298/-Floor With roof rights, Out of Khasra

(Symbolic Lacs NEW DELHI Mobile: TRADING Rs.40,49,294/-Property bearing No. 240 (Old Lal ₹ 30.80 Possession 9711023270 & CO. Dora of 1908-1909) Village- Rampura + Other Charges Lacs 8800013521 Applicable deductions/ Delhi-110035. Area - 200 Sq Yards. ₹ 3.10 (Owner: Mr. Chander Singh) repayments Lacs

No. 28/14/2 Shakurpur now abadi

known as Mahindra Park,

All the Part & Parcel of Build Up

Delhi-110034, Area-50 Sq. Yards.

(Owner: Mr. Gaurav Katyal)

E-AUCTION DATE: 05.03.2021, TIME: 12:00 NOON TO 2:00 PM WITH AUTO EXTENSION OF 10 MINUTES. Last Date & Time of Submission of EMD and Documents (Online) On or Before: 04.03.2021 Upto 4:00 PM. Bidder will register on website: https://www.mstcecommerce.com and upload KYC documents and after verification of KYC documents by the service provider, EMD to be deposited in Global EMD Wallet through NEFT/RTGS/Transfer (after generation of challan from https://www.mstcecommerce.com). The auction will be conducted through the Bank's

For detailed terms and conditions please refer to the link provided in www.centralbankofindia.co.in Secured Creditor or Auction Platform {https://mstcecommerce.com} Helpline No.-033-22901004. NOTICE FOR STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF SARFAEST ACT 2002 The borrowers/guarantors/ mortgagors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date

interest and ancillary expenses before the date of e-auction, failing which the property will be auctioned/sold and

E-auction will be held "As is where is", "As is what is" and "whatever is there is" basis.

DATE: 30.01.2021 PLACE: DELHI

9711023270

8800013521

BINITA RANI

M/S. S K

approved service provider "https://www.mstcecommerce.com"

balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

KESHAVPURAM

Mr. M. K. Gupta, Mob: 7428536228, Authorised Officer CENTRAL BANK OF INDIA, R.O. (North & Central), Chandni Chowk, Delh

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

Possession

+ Other Charges

Applicable deductions

repayments

04.02.2020

₹ 3.50

Lacs

₹ 0.35

Lacs

₹ 308.00

Phone No. 0120-4690000, Fax :0120-4351485 Notice is hereby given that, pursuant to the provision of Regulation 47(1) (a) of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday the 08" February, 2021 inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of

Place: New Delhi (Inderjeet Singh Wadhwa)

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to

the provision of Regulation 47(1) (a) of the SEBI

POSSESSION NOTICE

SD/- FOR HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

The Borrower/Guarantors having failed to repay the amount notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken

MANI BHAVNAM HOME FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED

श्रीनगर, 29 जनवरी (भाषा)।

श्रीनगर में पारा दो डिग्री और नीचे लुढक गया जबकि घाटी के अधिकतर क्षेत्रों में न्यनतम तापमान शुन्य से दस डिग्री सेल्सियस नीचे रहने के कारण कश्मीर में शुक्रवार को शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार श्रीनगर में पारा शून्य से 7.7 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। एक दिन पहले न्यनतम तापमान शुन्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। यानी इसमें दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

अधिकारियों के अनुसार उत्तरी कश्मीर में बारामुला के गुलमर्ग स्कीइंग स्थल पर न्यूनतम तापमान शून्य से 11.3 डिग्री नीचे रहा जो उसकी पिछली रात के तापमान शून्य से 13.4 डिग्री नीचे से अधिक है।

दक्षिण कश्मीर में पहलगाम पर्यटन स्थल पर पारा शून्य के 12 डिग्री नीचे तक चला गया जो उसकी पिछली रात के तापमान शून्य से 12.3 डिग्री नीचे से थोड़ा अधिक है।

कृपवाडा में न्यूनतम तापमान शुन्य से तीन डिग्री और कोकरनाग में शुन्य से 11.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पारे में गिरावट से जलाशयों में तथा घाटी के कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति लाइनों में पानी बर्फ बन गया है ।

रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड (पूर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड विदित) (CIN: L67120DL1981PLC011741) सेक्टर-14 रोहिणी, नई दिल्ली-110085 Email: info@ritaholdings.in, ritaholdingsltd@gmail.com Website: www.ritaholdings.in Ph: 011-27860681

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निर्देशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 08 फरवरी, 2021 को 4.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे निम्न व्यवसायों पर विचार एवं अनुमोदन किये जाऐंगे: क) 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी

ख) अध्यक्ष की अनुमित से यदि कोई अन्य व्यवसाय इस सचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट (www.ritaholdings.in) तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.msei.in तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड

तिथिः 29.1.2021 पवन कुमार मित्तल (निदेशक) स्थानः नई दिल्ली DIN: 00749265

(पूर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड विदित)

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules)

QA 393/2020 CANARA BANK (SYNDICATE BANK) Applicant

MR. MOHD ANJUM & ORS, Defendants

1 MR MOHD ANJUM S/o Sh. Gohar Maqsood C-148, Abdul Fazal Enclave, Part-II, Shaheen Bagh Jamia Nagar, New Delhi-110025 2 MRS. SHAREEN ANJUM

W/o Mohd. Anjum C-148, Abdul Fazal Enclave, Part-II, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, New Delhi-110025 3 M/S PEBBLES PROLEASE PVT. LTD.

REGISTERED OFFICE AT:

A-169, Second Floor, Mandawali Fazalgur, Ganga Ram Gali, New Delhi-110092 CORPORATE OFFICE AT:

SITE OFFICE AT Whereas the above named applicant has instituted a

case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this

Tribunal on 06.03,2021 at 10.30 AM. Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence Due to ongoing Pandemic situation, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for

that purpose: . All the Advocates/Litigants shall download the Cisco

Webex application/software:

Meeting ID and Password for the next date of hearing qua cases to be taken by Registrar/Recovery

Officer-1/and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. drt.gov.in under the Public Notice Head.

In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 11th day of Jan., 2021 By Order of the Tribunal

Assistant Registrar DRT-III, New Delhi

SEASONS NOTICE SEASONS FURNISHINGS

LIMITED CIN - L36101DL1990PLC039238

Regd. Off: 64, Ground Floor, Ring Road Lajpat Nagar - III, New Delhi: 110 024 Email:cs@seasonsfurnishings.com Website: www.seasonsfurnishings.com Phone No. 0120-4160126

Notice is hereby given that, pursuant to

the provision of Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday the 08" February, 2021 inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended as on 31" December, 2020.

Place : New Delhi (Mandeep Singh Wadhwa) **Managing Director** Date: 29.01.2021

सोमदत्त फाइनेंस कारपोरेशन लि. CIN: L65921WB1993PLC060507 पंजी. कार्यालयः गजराज चैम्बर्स, 2 बी दुसरा तल, 86

बी/2, टोपसिया रोड (दक्षिण), कोलकाता, पश्चिम बंगाल-70046 ईमेलः compliancesdfl@gmail.com

वेबसाईट www.somdattfin.com सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 47 के साध पठित विनियम 29 के अनवर्ती एतदद्वारा सचना दी जार्त

है कि 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिये कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन के लिये कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक शुक्रवार, 5 फरवरी, 2021 को आयोजित

कथित सुचना कंपनी की वेबसाइट www.somdut-

tfin.com और शेयर बाजार की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। कते सोम दत्त फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

संदीप कुमार चौबे स्थानः दिल्ली दिनांक: 28.01.2021

www.readwhere.com

अंसल बिल्डवेल लि.

CIN No.: L45201DL1983PLCO17225 पंजीकृत कार्यालय : 118, उत्परी प्रथम तल, प्रकाश दीप भवन, 7, टॉक्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 23353051, 23353052, फैक्स : 91-11-23310639, 23359550, क्रील : info@ansalabl.com वेपसहर : www.ansalabl.com

सूचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय 2015 के अधिनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक रविवार, 14 फरवरी, 2021

को कान्फ्रेंस रूम, 118, यूएफएफ, प्रकाशदीप भवन, 7, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के स्टैंडएलोन एवं समेकित,अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अनुमोदित किया जाऐगा।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.ansalabl.com के साथ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। अंसल बिल्डवेल लि. के लिए

(अशोक बाबू) स्थान : नई दिल्ली वरि. वी.पी. एवं कम्पनी सचिव दिनांक : 21 जनवरी, 2021 FCS No.: 2328



शालीमार पेंट्स लिमिटेड

सीआईएन : L24222HR1902PLC065611 **पंजीकृत कार्यालय** : स्टेनलेस सेंटर, चतुर्घ तल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर-32, गुक्तग्राम, (हरियाणा)-122001 वेबसाइट : www.shalimarpaints.com ई-मेल : askus@shalimarpaints.com

रतदद्वारा सुचीत किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सुचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि शालीमार पेंटस लिमिटेड ("कम्पनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक ब्यावार, 10 फरवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य विषयों के साथ, 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं तृतीय तिमाही हेत् कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय

परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे। इस सूचना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.shalimarpaints.com तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट्स नामत: बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। वारते शालीमार पेंट्स लिमिटेड

तिथि : 29 जनवरी, 2021 त्थान : गुरुग्राम

आनंद प्राजिक्ट्स लिमिटेड

(CIN: L40109UP1936PLC048200) पंजी. कार्यालय: हाउस नं. 304, आजादपुरा, ललितपुर-284403 (उ.प्र.) वेबसाईट: www.anandprojects.com, टेली. नं. +91 9891067472

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को एसएफ 001 एवं 035, 2रा तल, अंसल फॉर्च्यून आर्केड, सेक्टर-18, नोएडा- 201301 (उ.प्र.) में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त बोर्ड बैठक के अध्यक्ष की अनुमित से किसी अन्य व्यवसायों के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन) पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे

उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाईट www.anandprojects.com पर भी उपलब्ध तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

्पनः सेबी (इन्साइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा समय-समय पर संशोधित के अनुपालन में निर्मित इन्सायडर ट्रेडिंग के लिये कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो संहिता के अंतर्गत शामिल सभी निदेशकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये 01 जनवरी, 2021 से स्टॉक एक्सचैंजों को उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सूचना देने बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से

सुरेन्द्र कुमार शर्मा तिथि: 29.01.2021 (कंपनी सचिव) एम. नं. एफ-5737

 रघुनाथ नगर, लिटल विंग्स कैम्पस एम.जी. रोड, आगरा-282002, फोन: 05622522955

स्थानः नोएडा

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

E-mail: agr@federalbank.co.in

लॉकर प्रचालन से संबंधित सुचना

: फेडरल बैंक (''बैंक'') एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कुछ व्यक्तियों जिनके विवरण नीचे दिये गये हैं. के द्वारा हायर की गई लॉकर के रखरखाव में कुछ अनियमितताएं देखी गई हैं। संबंधित लॉकर हायरर को भेजी गई सचना (ऐं) अन्सर्क वापस लौट आई है। एतदद्वारा लॉकर धारक/अन्य इच्छक पार्टियों को सचना दी जाती है कि यदि इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर शाखा में जाकर वे लॉकर व्यवस्था को नियमित नहीं करते हैं तो यह बैंक लॉकर हायरर की लागत एवं खर्चे पर बैंक जो भी उचित समझे लॉकर को बल पूर्वक तोडकर खोलने तथा जरूरी

आग्रम कारवाः	इ करने के लिये बा	ध्य हागा।
शाखा	लॉकर संख्या	हायर-कर्ता का नाम एवं पता
-	MSSA022	श्रीमती दलवीर कौर, निवासीः 60 न्यू राजा मंडी, आगरा
	MSSA086	श्री हरेश कुमार, निवासीः 6/19, बेलागंज बड़ा भाई गली, आगरा
	MSSB119	श्रीमती अरुणाखन्ना, निवासीः 22 बाग फरजाना, सिविल लाइन्स आगरा
	MSSB149	श्रीमती रेणु कुमारी, निवासीः 11, वैभव नगर, आगरा
, ,	MSJA352	श्री लोकेश कुमार, निवासीः 23/246, जेओनी मंडी, आगरा
एमजी रोड	MSJA357	श्री एस पी कपूर, निवासीः 78, भरतपुर हाउस, आगरा
आगरा	MSJB432	श्री विष्णु अगरवाल, निवासीः बी 205, ट्रान्स यमुना कॉलोनी, आगरा
	MSJB439	श्री विमलेश शिवहरे, निवासीः बी 39, न्यू आगरा, आगरा
	MSJB412	श्री रूप किशोर सहगल, निवासीः 30बी, आलोक नगर, जयपुर हाउस आगरा
	MSJB440	श्रीमती सविता, गोयल, निवासीः फ्लैट नं. 404, फ्रैंड्स आशियाना खंडारी, आगरा
	MSJB443	श्री इन्दरजीत सिंह, निवासीः 43, खंडारी रोड, आगरा

तिथि: 31.01.2021 स्थानः आगरा

वरिष्ठ प्रबंधक, शाखा एमजी रोड, आगरा द फेडरल बैंक लि. के लिये

PREMIER POLYFILM LTD.

Regd.Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi, 110048 CIN: L25209DL1992PLC049590, Phone: 011-29246481

Email: compliance.officer@premierpoly.com, Website: www.premierpoly.com

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations.2015, a Meeting of Board of Directors of the company will be held on Tuesday, 09th February, 2021 at 11.30 A.M. at Registered Office of the company at 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048 to consider and approve Unaudited Standalone Financial Results of the company for the quarter and nine months

ended 31st December, 2020, Further, trading window for dealing in the securities of the Company by the Insiders, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 is closed from Friday, 01st January, 2021 to Thursday,11th February,2021 (both days inclusive).

The notice is available on the Company's website www. Premierpoly.com and also on www.bseindia.com and www.nseindia.com

For PREMIER POLYFILM LTD. Date: 29/01/2021 Sd/-Place: New Delhi **COMPANY SECRETARY**

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड (सीआईएन: L92199DL2000PLC104779)

पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003 दूरभाष संख्याः (+91-124) 4354400 • फैक्सः (+91-124) 4354500 ईमेल: info@kamaholdings.com • वेबसाइट: www.kamaholdings.com

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 8 फरवरी 2021 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अनुमोदन हेत् आयोजित की जायेगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.kamaholdings.com एवं

स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। कृते कामा होल्डिंग्स लिमिटेड

> हस्ता०/-एकता महेश्वरी

KAMA Holding

(पूर्ण कालिक निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी दिनांक: 29 जनवरी, 2021 एवं कम्पनी सचिव)



लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1992PLC049022) पंजीकृत कार्यालयः एसेट संख्या ६, एरोसिटी होरिपटैलिटी डिस्टिक्ट, नई दिल्ली-110037

दरभाषः +91-11- 4605 0101; फैक्सः +91-11-4605 0110 ईमेलः sectdeptt@lemontreehotels.com वेबसाइटः www.lemontreehotels.com

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 9 फरवरी 2021 को, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.lemontreehotels.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है, www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 29 जनवरी 2021

एवं अनुपालन अधिकारी

डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजिनेस पार्क,

स्वर्ण आभूषणा का नालामा हतु सावजानक सूचना

ж. स.	ऋण खाता स.	कजदार/सह-कजदार का नाम 	अभूषणों क कुल भार
1	30808730000015	लक्ष्मी/अनोखे लाल	13.94
2	30218740000067	विनोद कुमार⁄रतन लाल	9.35
3	32818739879727	सौरभ कुमार सुमन⁄राज किशोर रॉय	7.26
4	30808730000258	नितिन कुमार⁄योगेन्द्र पाल	17.15
5	30908730000235	राम प्रकाश मिश्रा ⁄महेश मिश्रा	11.89
6	30298730000232	राजबीर सिंह⁄सुल्तान सिंह	71.53
7	30218738487781	रोहताश आर⁄माही लाल	4.90
8	30218730000064	मंजीत कौर प्रीतम सिंह∕प्रताप	7.45
9	30218730000140	सीमा शंकर∕हरी	20.27
10	30808730001975	आशा सुभाष⁄लीलू राम	4.21
11	34408730000675	बृजेश कुमार∕ओमप्रकाश शाह	5.07
तिथि	29.01.2021	ह./- अधिकृत प्राधिकारी	
स्थान	: उत्तर प्रदेश	जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली

के साथ संबंधित कंपनी आवेदन सीए (सीएए) सं. 91/एनडी/2020

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 230-232 के साथ पठित कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) निवम, 2016 के निवम 16 (2)

एसीएल कम्पोनेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 458-1/18, सोहना रोड, नई कोर्ट के विपरीत, गुडगांव-122001, हरियाणा (हस्तांतरणकर्ता कंपनी 1/गैर-आवेदक कंपनी)

जेएमए ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-2/27, सफदरजंग डेवलमेंट

एरिया, नई दिल्ली 110016 (इस्तांतरणकर्ता कंपनी 2/आवेदक कंपनी 1)

जेएमए मार्केंटिंग लिमिटेड, (पूर्व में जेएमए राने मार्केंटिंग लिमिटेड). जिसका पंजीकृत कार्यालय

2ई/5, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055

(इस्तांतरी कंपनी / आवेदक कंपनी 3)

लिमिटेड (इस्तांतरणकर्ता कंपनी 3) एवं जेएमए मार्केटिंग लिमिटेड (पूर्व में जेएमए राने मार्केटिंग लिमिटेड) (हस्तांतरी कंपनी) के द्वारा समामेलन की योजना की मंजूरी हेतू, कंपनी अधिनियम 2013, की घारा 230-232 के अंतर्गत याधिका प्रस्तृत की गई थी और 19.01.2021 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई थी और यह याचिका 11 फरवरी, 2021 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष सनवाई हेत निर्धारित की गई हैं। कोई व्यक्ति उक्त यायिका का समर्थन अथवा विरोध हेत् इच्छक है तो वह अपने नाम तथा पते के साथ अपनी इरादे की सूचना याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को प्रेषित करे, जो कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई हेत निर्धारित तिथि से कम से कम 2 (दो) दिनों से ज्यादा विलम्ब से नहीं पहुंचनी वाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उक्त याविका पर आपत्ति है तो आपत्ति के कारण एवं शपथपत्र इस सूचना के साथ संलग्न होने चाहिए। याचिका की प्रति चाहने वाला कोई भी व्यक्ति निर्घारित शुल्क का भुगतान करने पर इसे अघोडस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकता है।

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 29.01.2021

निम्न के मामले में:

सुमन कुमार झा/अफनान सिदीकी वाधिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स सलाहकार और अधिवक्ता

डी-28, साचथ एक्सटेंशन-I, नई दिल्ली-110049 ईमेलः afnaan@indiacp.com. मोः 9716406207



रजिस्टर्ड ऑफिस : 305. तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-। नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922

एतद द्वारा सचित किया जाता है कि निम्न लिखित शेयर प्रमाण पत्रों के खो जाने की सचना दी गई है और तयों के

100	7821535-7821634	142457-142458	आशा शर्मा	034585
400	3054501-3054600	1186-1187	खजांची लाल	0111322
	3663901-3663950	13374		
	3851651-3851700	17129		
	4871001-4871050	37516		
	8226085-8226134	150548		
	11054845-11054894	129217		
	11290072-11290121	134496		
100	185047-185146	42881-42882	एन आर कुकरेजा	034347
6	16345939-16345944	251829	जी अन्नधारामन	023272
156	10895484-10895583	125493-125494	गुरजिन्दर सिहं	022149
	15421059-15421102	227332		
	16302828-16302839	249912	885	
100	3828901-3829000	16674-16675	अगिल अग्रवाल	12110
33	49393042-49393074	397490	जसवन्तीबेन मेहता	055614
100	2585127-2585226	356781	अंजना शाह योगेश शाह	047985
60	28984893-28984952	394433	के बी कथीजा बीवी ए पी एम मीदु के बी जमीर	K00338
20	28985055-28985074	394436	के बी जमीर ए पी एम मीटु के बी कथीजा बीवी	K00349
100	15955638-15955737	240221-240222	नेगादेवी	N01284

हस्ता./-अजय कृष्णा

वरि. उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कम्पनी सचिव ACS No.3296

की सं.

Apollo

इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली-मधुरा रोड, नई दिल्ली 110076 (भारत) निगमित पहचान संख्या. : L24232DL1988PLC030958 दूरभाष : 91-11-26925858, 26925801, फेक्स : 91-11-26823629 ई-मेल : imcl@apoliohospitals.com, गेबसाइट : delhi.apoliohospitals.com

सेबी (लिस्टिंग दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार सुचित किया जाता है कि कम्पनी की निदेशक मंडल की बैठक सोमवार 8 फरवरी 2021, को आयोजित की जायेगी जिसमें, 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुशंसा की जायेगी। उपर्युक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://delhi.apollohospitals.com

पर और स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। नई दिल्ली

एवीपी - कॉर्पोरेट मामले एवं विधि 29.01.2021

यनिवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लिमिटेड (पूर्व में जिन्दल फोटो ईमैजिंग लिमिटेड विदित) [CIN No: L22222UP2011PLC103611]

पंजी. कार्यालय: 19वाँ कि.मी., हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावथी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203408 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 12, सेक्टर बी-1, लोकल शापिंग कॉम्प्लैक्स, बसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070 टेली.: (011)-40322100, फैक्स: (011)-40322129,

ई-मेल: cs_uphoto@universusphotoimagings.com, वेबसाईट: www.universusphotoimagings.com सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''एलओडीआर'') के विनियमन 47 के साथ पठित

विनियमन 29 के अनपालन में एतद द्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शक्रवार) फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 31 दिसम्बर, 2020 के समाप्त तिमाही तथा नौमहीने के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित समेकित तथा स्टैंडएलॉन वित्तीय विवरणों पर विचार तथ पुनः एनएसई सर्क्युलर संदर्भ नं. NSE/ CML/ 2019/11 तथा बीएसई सर्क्युलरः LIST/COMP/01/2019-20 दोनों तिथि 2 अप्रैल, 2019 के अनसार विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा कम्पनी की शेयरों में व्यवसाय के लिए टेडिंग विण्ड

01 जनवरी. 2021 से ही बंद हैं तथा वित्तीय परिणामों के विचार के लिए 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही वे लिए वित्तीय परिणाम के प्रकाशन (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.universusphotoimagings.com/investors.html पर निवेशक संबंध के अन्तर्गत उपलब्ध है तथा उसे उपलोड करने के लिए उनकी संबंधित वेबसाईट अर्था

www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर स्टॉक एक्सचैंजों को भी भेजा गया है। यनिवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लि

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 29.01.2021

RACL

कम्पनी सचिव एसीएस: 41503

सुरेश कुमा

गुरशरण सिंह

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड CIN: L34300DL1983PLC016136 पंजी. कार्यालय: 15वाँ तल. ईरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 Phones: +91-11-66155129, +91-120-4588500 / Fax No.: +91-120-4588513 E-Mail: investor@raclgeartech.com, Website: www.raclgeartech.com

शेयर प्रमाणकों के गुम होने की मुचना एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा जारी निम्न शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के कथित रूप से गुम/स्थानच्युत हो जाने की सुचना मिली है तथा उसके पंजीकृत धारक ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कम्पनी के पार

(त्रों) की सं.

एतद्द्वारा आम जनता को किसी भी रूप में उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा व्यवसाय के प्रति सतर्क किय

जाता है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में कम्पनी के प्रति कोई दावा हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ऊपर दिये गये पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं की जायेगी तथा कम्पनी ड्रिप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड के लिये

तिथि: 29 जनवरी, 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड O HOB INVAVI

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सुचना

शाखा कार्यालयः बिल्डिंग नं. 59, 1ला एवं II रा तल, पंचकुइयां रोड, आरके आश्रम मार्ग मेट्रो के निकट, नई दिल्ली-110001

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभतियों) को गिरर्व रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सविधा(एँ) प्राप्त की हैं तथा उसे वापर लौटाने में चुक की है। आपकी चुक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप मं वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सुचना जारी की जिसका विषय-वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सुचित

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सुचना तिथि, सुचन में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभतियों का विवरण इस प्रकार है:

. ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम: इंडो गल्फ डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड, सुखदेव कुमार, गुलशन रानी, दर्शन राम तथा नवदीप कुमार, सभीः बी 498 ए, सेक्टर 19, नोएडा-201301, साथ ही प्लॉट नं. 88, ब्लॉक बी, सेक्टर 44, नोएडा-201301, ऋण खाता सं. 1513616, 889767 तथा 889735 जं यूनिक आईडी नं. 777304 से जुड़ा है; ऋण राशिः रु. 7798000 (रुपए सतहत्तर) लाख अन्टानवे हजार मात्र) ऋण खाता सं. 1513616 के द्वारा रु. 50000000 (रुपए पांच करोड़ मात्र), ऋण खाता संख्या 889767 द्वार रु. 27500000 (रुपए दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 889435 द्वारा; मांग सुचना तिथि 7.1.2021; मांग की गई राशिः रु. 6,99,88,285.60 (रुपए छह करोड़ निन्यानवे लाख अठासी हजार दो सै पच्चासी एवं पैसे साठ मात्र) ७ जनवरी, २०२१ को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए की तिथिः 5.7.2020, प्रतिभृति का विवरणः सुखदेव कुमार के नाम में दर्ज प्लॉट नं. बी 88, सेक्टर 44, नोएडा-201010, माप 450 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा। पंजीकरण दस्तावेज सब रजिस्ट्रार ऑफ एस्यरैन्सेस, नोएडा के कार्यालय में 21.12.2010 को क्रम सं. 2078 में बुक नं. 1, पेज 147 से 192 में। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः 12 मी. चौडा रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. बी-118, उत्तरः प्लॉट नं. बी

87, दक्षिणः प्लॉट नं. बी-89 अतएव, आप ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों तथा गारन्टर को निर्देश दिया जाता है कि इस सुचना के 60 दिने के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पर्ण राशि का भगतान करें जिसमे विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभृतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत

कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे। (ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।) कपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभृतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की

धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करें:

स्थानः दिल्ली एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए तिथि: 28.01.2021 (प्राधिकृत अधिकारी)

श्री आशीष कुमार, फोन: 9999260180 अथवा श्री विकास आनंद, 9711010384

्रमञ्ज्ञा एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड कब्जा सूचना पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, पिन कोड-38000

शाखा कार्यालयः एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लि., 19, पंचकुइयां रोड, भारत नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110001 जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर संबंधित ऋणधारक को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि के साथ भुगतान की वास्तविक

तिथि तक सभी लागतों, चार्जेज, खर्चे आदि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था। उक्त ऋणधारक/सह-ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहें. अतः एतदद्वारा ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित रूम में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथि से आगे के ब्याज लागतों एवं चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के

अधीन होगा। ऋणधारक तथा सह-ऋणधारकों. गारन्टरों ऋण खाता संख्या. ऋण की राशि प्रतिभति का विवरण मांग सचना तिथि तथा कब्जा की तिथि का विवरण इस प्रकार है:

क्रम 1. ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ गारन्टर का नाम एवं पता; 2. ऋण खाता संख्या; 3. ऋण की सं. राशि: 4. प्रतिभृतियों का विवरण; 5. मांग सुचना तिथि; 6. मांग की गई राशि (आईएनआर में) ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारन्टर का नाम एवं पताः अमय लॉजिस्टिक्स. शॉप नं. 263, 2रा तल. बर्धमान

स्टार सिटी माल, सेक्टर 07, द्वारका, नई दिल्ली-110076; विनेश, देवकान्त यादव तथा शरमण सिंह सभी ए2-1002, गोल्फ लिंक अपार्टमेन्ट्स, द्वारका, नई दिल्ली-110074; 2) ऋण खाता सं. 944207; 3) ऋण की राशिः रु. 60,50,000/- (रुपये साठ लाख पचास हजार मात्र); 4) प्रतिभूतियों का विवरणः ग्राम पालम, राजनगर-II के नाम से विदित कॉलोनी, नई दिल्ली की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नं. 47/16 25 में से प्लॉट नं. 67, माप 220 वर्ग यार्ड्स के लिये आर/ओ एफ-766/8, राज नगर पार्ट II, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली जो बुक नं.1, वॉल्यूम नं. 3115, पेज-132-135 में दस्तावेज सं. 11942 के रूप मैं सब रजिस्ट्रार ऑफ एस्युरैन्सेस के पास 15.9.2016 को पंजीकृत है। चौहदीः पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः 20 फीट रोड, दक्षिणः रोड 20 फीट; 5) मांग सूचना तिथिः 16.6.2020; 6) मांग की गई राशिः 9.6.2020 को रु. 1,38,91,318.01 (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ अठारह तथा पैसे एक मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक भुगतान तक आगे का अनुबंधित ब्याज; 7) कब्जा की तिथिः 27.1.2021

2. 1) ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ गारन्टर का नाम एवं पताः राजेश सदेव, मीनू सहदेव, एवं सौरभ सहदेव सभीः एच.नं. जे एंड के 56, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, नई दिल्ली-110092, साथ हीं: प्लॉट नं. डी-362 गली नं. 13 एवं 14, खसरा नं. 2020, शकरपुर खास, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली- 110092, साथ हीं: प्लॉट नं. 26-बी, एरिया 50 वर्ग मी., कवर्ड एरिया 41.8 वर्ग मी., ग्राम खुरेजी खास, जे एवं के ब्लॉक की आबादी, लक्ष्मी नगर, ग्राम शाहदरा, दिल्ली- 110092, साथ हीं: यूनिट नं. 1/4225, राम नगर, शाहदरा दिल्ली-110032, 2) ऋण खाता सं.: 745188, 3. ऋण राशिः रु. 7000000 (रुपये सत्तर लाख मात्र) 4) प्रतिभृति का विवरणः सम्पत्ति सं.: भू तल (कवर्ड एरिया 35.95) एवं प्रथम तल (कवर्ड एरिया 35.59) के साथ सम्पूर्ण छत/ टेरेस अधिकार, एरिया माप 43 वर्ग मी., प्लॉट नं. डी-362 का भाग, गली नं.13 एवं 14 खसरा नं. 220, शकरपुर खास, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092, उक्त सम्पत्ति अतिरिक्त बुक सं 1, वॉल्यूम नं. 226, पेज 06 से 15 में 25.4.2014 को दस्तावेज सं. 1647 के रूप में सब रजिस्ट्रार ऑफ एस्युरैंसेस के पास पंजीकृत है। सम्पत्ति सं. 2: पोर्शन क्षेत्रफल माप 50 वर्ग यार्ड्स, सम्पत्ति सं. 26-बी क्षेत्रफल 50 वर्ग यार्ड्स, कवर्ड एरिया 41.8 वर्ग मी., ग्राम खुरेजी खास, जे एवं के ब्लॉक की आबादी लक्ष्मी नगर, ग्राम शाहदरा, दिल्ली-110092 का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहदीः पूर्वः सम्पत्ति सं. 26बी का भाग, पश्चिमः 15 फीट चौड़ा रोड, उत्तरः सम्पत्ति सं. 26सी, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 26ए; 5) मांग सूचना तिथिः 17.8.2020; 6) मांग की गई राशिः 14.8.2020 को रु. 15629354.39/- (रुपये एक

करोड छप्पन लाख उन्नतीस हजार तीन सौ चौवन एवं पैसे उन्तालिस मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसुली तक आगे का अनुबंधित ब्याज आदि; 7) कब्जा की तिथि।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। स्थानः दिल्ली हस्ता./- एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये तिथि: 29.01.2021 प्राधिकृत अधिकारी

अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम

तापमान के जमांक के नीचे रहने

की ही संभावना है क्योंकि मौसम

विज्ञानियों ने दो फरवरी को घाटी में

पश्चिमी विक्षोभ के आने की

कलां' के गिरफ्त में है यानी यह

40 दिन का ऐसा दौर होता है जब

पुरे क्षेत्र में शीतलहर चलती है

और तापमान काफी गिर जाता है।

प्रसिद्ध डल झील समेत जलाशयों

में पानी बर्फ बन जाता है। इस

दौरान ज्यादातर क्षेत्रों खासकर

ऊंचाई वाले इलाकों में खुब

पब्लिक नोटिस

एतद्वारा जनसामान्य को सचना दी जाती है कि

भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ द्वारा जारी

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. बी-06.00282, मैसर्स

बीएसबी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष

में, सहित आरबीआई तथा आरओसी से

सम्बन्धित मूल दस्तावेज वाली फाइल

मिसप्लेस हो गयी है और मिल नहीं रही है

यदि किसी को यह प्राप्त होती है तो इसे मैसर्स

बीएसबी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक

जी13, बेसमेंट, निकट ईरोज सिनेमा, जंगपुरा

एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014 पर पहुँचाने

का कष्ट करें। सम्पर्क नं. 9205778240

'चेतावनी : यदि खोए हुए दस्तावेज का कोई

अनधिकृत उपयोग पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति

(कंपनियों के 30 नियम (निगमन) नियम 2014 के

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र (केंद्र सरकार

बी -2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और निवम 3

(5), 30 (6) कंपनियाँ (निगमन) के नियम, 2014 के मामा

राक्ति इरपात प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्याल

हरगोविंद एन्क्लेव केबिन नंबर 2 फ्लॉट नंबर 12 प्रथम

तल, कवककबूमा, दिल्ली-110092

म जनता को यह सूचना दी जाती है कि आवेदक कंपनी के

ए कॅपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत **क्षेत्रीय**

मोर्रेडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि करने व

निदेशक उत्तरी शासन के माध्यम से केंद्र सरकार के

क आवेदन करने का प्रस्ताव करती है 31 दिसंबर 2020 को

गयोजित एक वार्षिक आम बैठक में पारित किए गए विशेष

स्ताव के संदर्भ में, कंपनी ने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय**

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलन

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्ताविक स्थानांतरण

निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर **एमसीए पोर्टल (www**

शपध पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध क

हारण जिल्लाचित हो के लाग अपनी आपनि पारेत्रिक

नेदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के

भीतर क्षेत्रीय निदेशक, पता- **बी -2 विंग, द्वितीय तल**,

seens जपर्यक्त पते पर पंजीवत दाक दारा भेज सकता है

वा सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आयेदक कंपनी को

उनके नीवे दिए पंजीकृत कार्यालय में एक कॉपी के साथ दिए

रगोविंद एन्क्लेय, केबिन नंबर 2, प्लॉट नंबर 12, प्रथम तल

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI

Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to

Banks and Financial Institutions Act. 1993 read with Rule

2 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules)

OA NO. 392/2020/DRT-III

CANARA BANK (SYNDICATE BANK) Applicant

HANEEF MOHD, & ORS, Defendants

H. No. A52/1, Gali No. 6, Ali Extn., Sarita Viher,

H. No. A52/1, Gali No. 6, Ali Extn., Sarita Vihar,

D-151, 1st Floor Khanpur Colony, Near Sainik Farm.

Sector-2 Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062

-4 M/S VOCATIONAL EDUCATIONAL FOUNDATION

Also At:- D-302, Sector 10, Noida, UP-201301

ribunal on 06.03.2021 at 10.30 AM.

be heard and decided in your absence.

Webex application/software:

that purpose:

No.23748469.

13th day of Jan., 2021.

Site Office: Plot No. 8. Sector-Pl 182. Greater Noida.

Whereas the above named applicant has instituted a

case against you and whereas it has been shown to the

satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve

you in ordinary way. Therefore, this notice is given by

advertisement directing you to make appearance in this

Take notice that in case of your falliure to appear on the

above mentioned day before this Tribunal, the case will

Due to ongoing Pandemic situation, all the matters

will be taken up through Video Conferencing and for

. All the Advocates/Litigants shall download the Cisco

Meeting ID and Password for the next date of

hearing qua cases to be taken by Registrar/Recovery

Officer-1/and Recovery Officer-II shall be available

one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e.

In any exigency qua that, the Advocates/Litigants

can contact the concerned official at Ph.

Siven under my hand and seal of this Tribunal on this the

SEASONS TEXTILES LIMITED

Regd. Off.: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground

Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110024

Website: www.seasonsworld.com

Phone No. 0120-4690000, Fax :0120-4351485

Notice is hereby given that, pursuant to the

provision of Regulation 47(1) (a) of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, a meeting

of the Board of Directors of the Company is

scheduled to be held on Monday the 08"

February, 2021 inter-alia to consider and

approve the Un-Audited Financial Results of

the Company for the Quarter ended as on 31"

Place: New Delhi (Inderjeet Singh Wadhwa)

ओसवाल लीजिंग लिमिटेड

CIN: L65910DL1983PLC016036

पंजीकृत कार्यालयः 105, अशोका एस्टेट, 24,

बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

इमेलः oswal_leasing@owmnahar.com,

वेबसाइटः www.owmnahar.com

बोर्ड की बैठक की सचना

एतदहारा सचना दी जाती है कि सेव

एलओडीआर), विनियमों, 2015 के विनियम 29 के

साथ पठित विनियम 47 के अनुवर्ती 31 दिसंबर, 2020

को समाप्त तिमाही तथा नौ महीनें के लिए कंपनी के

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों और विविध व अन्य

मामलों पर विचार और अनुमोदन के लिए कंपनी के

निदेशकों के बोर्ड की बैठक कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय में शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को

अपराहन 03.00 बजे आयोजित होना अधिसुचित है।

कथित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.owmna

har.com और शेयर बाजार की वेबसाइट

www.bseindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है

(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

कते ओसवाल लीजिंग लिबिटेड

हस्ता./

स्थानः गुरुग्राम

पलक नारंग

एसीएस 43749

Managing Director

December, 2020.

Date: 29.01.2021

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 29.01.2021

CIN - L74999DL1986PLC024058

By Order of the Tribuna

Assistant Registrar DRT-III, New Delhi

drt.gov.in under the Public Notice Head.

SEASONS NOTICE

सुमाथ चंद माहेश्वरी

मोदीनगर यूपी -201204

(निदेशक) ढीआईएनः 00884722

परमेश्वरी निवास, लोअर बाजार,

पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालयः

आवेदक की ओर से

हडकडडमा. दिल्ली--110092

हिनांकः 30 जनवरी 2021

स्थानः नई दिल्ली

993). In the matter of

-1 M. HANEEF MOHD

New Delhi-110076

-2 MRS, SHEKH PRAVEEN

S/o Hussain Ali

W/o. All Anwar

3 MR. AMARDEEP

S/o Rakesh Kumar

mca-gov-in) में शिकायत दर्ज कर सकता है वा

के मामले में,

के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।"

बर्फबारी होती है।

8630869438.

कश्मीर फिलहाल 'चिल्ला-

संभावना व्यक्त की है।





2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेत् कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों, एकल एवं समेकित दोनों आधार पर, विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जायेगी।

निखिल सेठी ग्रूप कम्पनी सचिव व जीएम लीगल

जैना स्माल फाइनेंस बैंक मुख्य कार्यालय : जैना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड-द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ

चल्लाघट्टा, बेंगलुरू-560071

निम्नलिखित कर्जदार अनेक रिमाइंडर भेजने के बावजूद निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर्ज अदा करने और स्वर्ण आभूषणों को छुड़ाने में असफल रहे हैं। नीचे सूचीबद्ध कर्जदारों द्वारा कथित ऋण खातों के तहत प्लेज्ड स्वर्ण गहने/आभूषण 18.12.2021 को 10.30 बजे प्रातः हमारी शाखा परिसर में सार्वजनिक/ऑनलाइन/निजी नीलामी द्वारा बेचे जायेंगे। इच्छुक भागीदारों से निवेदन है कि वे शाखा से सम्पर्क करें। बैंक को बिना कोई कारण बताये किसी भी संविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी उसी दिन नहीं सम्पन्न हो पाती है तो इसे उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अगले दिन बेचा जायेगा। यदि ग्राहक मृत हो जाता है तो नीलामी से सम्बन्धित सभी शर्तें उसकी नामिती/विधिक उत्तराधिकारी के लिए प्रयोज्य होंगी। एतद्वारा कर्जदार को नीलामी तिथि रं पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों को अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता जिसमें असफल रहने पर प्लेज्ड स्वर्ण आभूषणों की बिक्री कर दी जायेगी और बकाया, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत सहित वसूल किया जायेगा। नियमों एवं शर्तों तथा पूछताछ वे लिए शाखा से सम्पर्क करें। शाखा पता के विवरण हेतु www.janabank.com देखें

			आभूषणों क कुल भार
1	30808730000015	लक्ष्मी/अनोखे लाल	13.94
2	30218740000067	विनोद कुमार⁄रतन लाल	9.35
3	32818739879727	सौरभ कुमार सुमन⁄राज किशोर रॉय	7.26
4	30808730000258	नितिन कुमार∕योगेन्द्र पाल	17.15
5	30908730000235	राम प्रकाश मिश्रा/महेश मिश्रा	11.89
6	30298730000232	राजबीर सिंह⁄सुल्तान सिंह	71.53
7	30218738487781	रोहताश आर⁄माही लाल	4.90
8	30218730000064	मंजीत कौर प्रीतम सिंह∕प्रताप	7.45
9	30218730000140	सीमा शंकर⁄हरी	20.27
10	30808730001975	आशा सुभाष⁄लीलू राम	4.21
11	34408730000675	बृजेश कुमार/ओमप्रकाश शाह	5.07
तिथि	: 29.01.2021	ह./- अधिकृत प्राधिकारी	
स्थान	: उत्तर प्रदेश	जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	

कंपनी याचिका (सीएए) सं0. 06/एनडी/2021

निम्न के मामले में:

जालंघर ऑटो सेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 2749, मिनर्वा सिनेमा के

पीछे, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली–110006 (इस्तांतरणकर्ता कंपनी 3/आवेदक कंपनी 2)

वाचिका की सूचना जेएमए ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी 2), जालंधर ऑटो सेल्स कॉपॉरेशन



वेबसाईट : www.uflexitd.com, इमेल : secretarial@uflexitd.com सूचना

			विशिष्ट सं.	Tourtu
प्रमाणपत्र	आफिस में अपनी लिखित आपीं जारी करने पर विद्यार करने के लि कुकसान, वित्तीय या अन्यधा के रि	ाए स्वतंत्र होगी । और कंप भए जिम्मेदार नहीं होगी।	नी ऐसे किसी भी व्यक्ति	/व्यक्तियों के

पता : सी-001, कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी ई-8, सेक्टर-61, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

तिथि : 29.01.2021